



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31—जून 6, 2008 (ज्येष्ठ 10, 1930)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31—JUNE 6, 2008 (JYAISTHA 10, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2008

सं. आर.एस./3/7(1)/2008/25—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री बंसी लाल, अनुवादक को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री बंसी लाल द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के ग्रेड में प्रदान की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता तथा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अर्हता के प्रयोजनार्थ गिना नहीं जाएगा।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 12 मई 2008

सं. आर.एस./6/4/2008/26—कार्मिक—श्री जी. नरहरी को 11 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए अध्यक्ष, उद्योग समिति

(श्री वी. हनुमंत राव) के वैयक्तिक स्टाफ में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री जी. नरहरी की नियुक्ति उद्योग समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 19 मई 2008

सं. आर.एस./3/8(1)/2008/27—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम, सुरक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 28 मार्च 2007

सं. बी. 22012/1/2005-III--भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 की अधिनियम सं. 19) की धारा 8 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम (धारा 6-ए के सिवाए) के प्रावधान, उत्तर पूर्वी अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (उ. पू. -सैक), शिलांग के कर्मचारियों को लाभार्थ स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 की अधिनियम सं. 19) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार "उत्तर पूर्वी अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, शिलांग" का नाम उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल करती है।

ई.वी. रमण रेड्डी, निदेशक

बेंगलूर-560094, दिनांक 29 अप्रैल 2008

सं. 2/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	जिस पद से पदोन्नति की गई	जिस पद पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	कल्पना मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
2.	मनीष शेखर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
3.	एन. राम कुमार आचार्यलु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
4.	बी. के. दाम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
5.	प्रियंका उपाध्याय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 2/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक जनवरी 28, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम
	श्री/श्रीमती/कु.
1.	विजेंद्र ज्यूसि रेड्डी
2.	राजेश रेड्डी टाट्टला
3.	अनुराधा राथोड
4.	सुरिमता मुक्का

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 2/1(2)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में श्री जी. रवि कुमार, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 04.01.2008 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के.एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	अनूप सी. आर.	15.12.2006
2.	राजेश आर.	07.09.2007
3.	बालू प्रोप्पिस	28.05.2007
4.	अभिषेक शर्मा	28.05.2007
5.	कार्तिक आर.	08.08.2007
6.	अनिल जायसवाल	26.02.2008

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	नाम	जिस पद से पदोन्नति की गई	जिस पद पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	कैलासनाथन पी.पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.
2.	राजू पी थामस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
3.	एन. आर. विष्णु कर्त	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
4.	पौली पी. जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
5.	जयनारायण एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
6.	कार्तिकेयन सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
7.	वैक्केश एस. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
8.	कुमार पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
9.	जयन एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
10.	अजयदास पी. जद.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
11.	बिजोय जॉन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
12.	कृष्ण मोहन शानभोग के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
13.	पॉल मोनी सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
14.	मुरुगेशन एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
15.	विश्वनाथ बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
16.	जार्ज ओमेन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
17.	विजयन एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
18.	जगदीश चंद्रन एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
19.	सोनेफ के. ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
20.	सुनील एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
21.	हर्माद राथर पी. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
22.	बांगा जोसेफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
23.	सतोश बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
24.	रमेश बाबू एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
25.	सुरेश आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
26.	काण्णन बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
27.	इलंगो पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
28.	राधाकृष्णन आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
29.	सेतमरे कण्णन आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
30.	सोनसुंदरम पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
31.	बेजिगर राजन ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
32.	सुबह्र एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
33.	अय्यप्पन बी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
34.	पंकज एच. पुञ्जालवर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
35.	अरिवेझकन आर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
36.	अजित एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
37.	कन्नन अहमद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
38.	पौडुसामी पी. एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
39.	रमेश बाबू एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
40.	वागी के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
41.	सुखलक्ष्मी के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
42.	अमृग पेरुमाल एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
43.	तार्मल सेल्वन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
44.	स्वोट अत्रि गेस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
45.	विजयकुमार डी आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
46.	गोविंदराजन एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
47.	कन्ली बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
48.	सुरेन्द्रन आचारी एन.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-क	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
49.	रेजीस वेलिंगटन एम.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-क	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
50.	वेलुसामी एस.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-क	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
51.	राधाकृष्णन एम. आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
52.	देवासिया बी. जे.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
53.	फ्रांसिस वर्की	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
54.	शिवरामय्या जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
55.	सिंह सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
56.	मणिकंदन जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
57.	हरि प्रसाद एच.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला में निम्नलिखित के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.			
1.	पद्मकुमार आर.	वैयक्तिक सहायक	क्रय और भंडार अधिकारी	08.10.2007
2.	महादेवन बी.	सहायक क्रय और भंडार अधिकारी	क्रय और भंडार अधिकारी	27.04.2007

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदनाम	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	मुहम्मद अर्षद पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	13.06.2007
2.	अरुलरसु के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	28.09.2007
3.	राहुल कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	19.04.2007
4.	गोजो जॉर्ज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	06.07.2007

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
5.	एम. एन. बी. रवि किरण कुरपात	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	12.07.2007
6.	अनुपम रवि	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	23.07.2007
7.	नाराज कुमार मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	02.08.2007
8.	भास्करन एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	13.08.2007
9.	सतयनारायण एमणि वी. आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	04.10.2007
10.	मिस्टर मंत्री	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	13.11.2007

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2008-I - अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	राधाकृष्णन एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	31.10.2007 (पूर्वाह्न)
2.	मणि जी. के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	30.06.2007 (पूर्वाह्न)
3.	मोमय जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	31.07.2008 (पूर्वाह्न)
4.	साम्भुअल जयप्रकाश एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	31.08.2007 (पूर्वाह्न)
5.	बालचंद्रन शम्भुरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	30.04.2007 (पूर्वाह्न)
6.	लोकेशमन एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	31.05.2007 (पूर्वाह्न)
7.	प्रतापचंद्रन पिल्लै एम. पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	30.09.2007 (पूर्वाह्न)
8.	क्षीरामचंद्रन आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	31.10.2007 (पूर्वाह्न)
9.	गोपाशयन नाथर के. आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	30.09.2007 (पूर्वाह्न)
10.	सैलीधन चा चंद एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	31.08.2007 (पूर्वाह्न)
11.	जनाधरन एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	31.07.2007 (पूर्वाह्न)
12.	डेनियल फर्नांडेज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	28.09.2007 (पूर्वाह्न)
13.	जति एम. सी.	वरिष्ठ क्रय व भंडार अधिकारी	30.03.2007 (पूर्वाह्न)
14.	शचचंद्रन पिल्लै के. पी.	वरिष्ठ क्रय व भंडार अधिकारी	31.05.2007 (पूर्वाह्न)

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2008-I - अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई. ने स्वेच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	पुनकृष्णन जी.	वैज्ञानिक अभियंता-एस.ई.	10.09.2007 (पूर्वाह्न)
2.	देवराजकमल का.	वैज्ञानिक अभियंता-एस.ई.	07.11.2007 (पूर्वाह्न)

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. 5/1(1)/2008-I - राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 10.02.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	एन. के. मलिक	विशिष्ट वैज्ञानिक
2.	एस. सी. रस्तोगी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
3.	बी. श्रीधर मूर्ती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
4.	आर. एस. एक्कुन्डो	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
5.	एन. प्रह्लाद राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
6.	के. सी. बी. एस. एस. आर. आन्जनेयलु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
7.	डॉ. के. बदरी नारायण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
8.	एम. अन्नादुरै	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I - राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री बी. एस. गणकृष्ण को प्रशासन अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 24.04.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I - राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री पी. पी. गुप्ता, वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 17.01.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I - राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	जिस जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	के. एम. सूर्यभाषण राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.
2.	बी. एन. बालिग	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.
3.	बी. साधुशिव राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.
4.	एन. सी. भट्ट	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.
5.	वरिमल कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
6.	चित्रा राममूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
7.	वी. वेकटेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
8.	के. टी. राम प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
9.	ए. एस. लक्ष्मीप्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
10.	डॉ. वी. के. हरिहरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
11.	टी. वृष्णमूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	जिस जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	डॉ. ई. कृष्ण कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
2.	श्रीनिवास मूर्ति एच. आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
3.	उषा डी. शास्त्री	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
4.	विजयकुमार पूजारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
5.	बी. कृपासागर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
6.	के. एस. श्रीराम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
7.	एन. प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
8.	लूईस ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
9.	जी. अनन्द चन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
10.	एच. ए. वेकटेश प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
11.	एम. रमेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
12.	इप्तीकर हुसैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
13.	नलिन राघवन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
14.	प्रकाश के. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एम. रामदास	प्रशासन अधिकारी	04.01.2006
2.	सत्यनारायण पी.	लेखा अधिकारी	23.01.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	जिस जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	राकेश कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
2.	एस. श्रीविद्या	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
3.	श्रीकान्त जोल्गीकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
4.	रितु करिधाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
5.	अंतु सोरल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
6.	एस. रामभद्रम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
7.	के. बालाजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
8.	अभिजित अविनाश अदोनी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
9.	बी. कार्तिकेयन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
10.	सी. एस. गुरुदत्त	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
11.	कमलजीत सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
12.	जी. एन. बी. प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
13.	के. आर. योगेश प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
14.	पी. लक्ष्मणसामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
15.	राजीव मलहोत्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
16.	जी. मीना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
17.	रंजन परमानिक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
18.	वी. नित्यप्रिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
19.	मुनिश कुमार अग्रवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
20.	बी. टी. खादर लक्ष्मी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	जिस जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	रमण मूर्ति ए. वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
2.	श्रीनिवास वी. हुडलगोल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
3.	एल्वीर गोमस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
4.	सी. के. राधाकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
5.	राम मोहन मिश्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
6.	प्रदीप को. पांडे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
7.	एन. शिवबाल- मुचर्मणियन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
8.	वर्तिना एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
9.	पी. मानांत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
10.	पी. वेंकट नरसिंह मृति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
11.	के. सिला मनोहर रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
12.	बी. मुरली कृष्ण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
13.	एम. आर. राघवेंद्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
14.	अनन्त श्रीपादराव अथवले	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
15.	परियनी एन. विजयकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
16.	एस. सुभाकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
17.	एम. शरवण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
18.	नंदनी हरिनाथ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
19.	शारदा एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
20.	अनूप कुमार जैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-1- -राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थापना रूप में दिनांक 01.01.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	निर्वाद्या बी. के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
2.	आर. वनिता देवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
3.	संदेश शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
4.	जीवन कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
5.	एस. राम श	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
6.	पी. मुरली कृष्ण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
7.	नरेश कुमार मय्य	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
8.	नवनीत सुधा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
9.	डा. लक्ष्मी निरंशोर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
10.	मुद्दयरा/मुद्दयन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
11.	सत्यनारायण कसारा ब.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
12.	संजित पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
13.	लोपमुद्रा मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
14.	नितिन कुमार जैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-1- -राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	शोभा चन्द्रेकर	10.02.2006
2.	मानस सरकार	13.02.2006
3.	सुजितकुमार एन.	22.02.2006
4.	शिव कुमार कंडिया	03.03.2006
5.	कनिकांति उपा देवी	08.03.2006
6.	पी.आर. सरिता	10.03.2006
7.	सजिव कुमार जे. एस.	13.03.2006
8.	नवाब अहमद	20.03.2006
9.	एम. पी. रिजेश	23.02.2006
10.	वेंकट शास्त्री वडलमणि	23.02.2006
11.	एस. फर्जाना बानु	23.02.2006
12.	विकास कुमार श्रीवास्तव	23.02.2006
13.	प्रसोब सुनी	23.02.2006
14.	अंकित अग्रवाल	23.02.2006
15.	आनन्द द्विवेदी	23.02.2006
16.	अमित मार्जी	23.02.2006
17.	तनुजा अभिजित फटकी	24.02.2006
18.	जी. बालाजी	24.02.2006
19.	बालाजी आर.	22.03.2006
20.	बी. कमलप्रिया	24.03.2006
21.	बी. संपत कुमार	29.03.2006
22.	कुन्दन कर्मा	13.04.2006
23.	सुमेश एम. ए.	21.04.2006
24.	वेजवाड़ा रवि किशोर	25.05.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	श्रीकुमार वी.	10.01.2006
2.	एस. श्याम सुन्दर	10.01.2006
3.	प्रशान्त पी. एस.	10.01.2006
4.	अनुराग त्यागी	11.01.2006
5.	अरस कुमार आर.	11.01.2006
6.	चैतन्य पी.	11.01.2006
7.	करल श्रीनिवास कुमार	11.01.2006
8.	किशोर बाबु एन.	11.01.2006
9.	क्रिशन कुमार तिवारी	11.01.2006
10.	एन. लक्ष्मी नरसिंहन	11.01.2006
11.	मेहता नंदीश अशुतोष	11.01.2006
12.	हमीद अहमद खान एम.डी.	11.01.2006
13.	नवीन के. पी.	11.01.2006
14.	जूर्मी के. एन. किरण कांत	11.01.2006
15.	विनिता रामदास	11.01.2006
16.	विजय पाल कुन्दनपल्ली	11.01.2006
17.	वर्ड राघवन	11.01.2006
18.	उषा एन.	11.01.2006
19.	शाहुल हमीद अन्सारी एम. डी.	11.01.2006
20.	सूजो जोसेफ के.	11.01.2006
21.	रविकुमार केशवप्पा	11.01.2006
22.	एस. भवित्र	11.01.2006
23.	अनुब्रता डे	20.01.2006
24.	एस. सोमसुन्दरम	20.01.2006
25.	कुमार एस.	30.01.2006
26.	वी. एल. एन. श्रीधर राजा	06.02.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में डॉ. भरत खुशालनी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 03.03.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2008-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के पूर्वाह्न से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यभार छोड़ने की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	गणेशन पी. पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी.	17.02.2006
2.	नागराज सी. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. जी.	09.05.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2008-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों व अधिकारियों ने अपनी निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	के. एस. वी. शेषाद्रो	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	31.12.2005
2.	के. जनार्दनन	प्रशासन अधिकारी	31.12.2005
3.	अनिल डी. राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. एफ.	28.02.2006
4.	शशिकला बालकृष्ण	क्रय व भण्डार अधिकारी	31.03.2006
5.	एस. चन्द्रशेखरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. एफ.	31.03.2006
6.	के. कनक राजु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	31.05.2006
7.	एन. मन्थय्या	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	31.05.2006
8.	सदानन्दा किणी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. एफ.	31.05.2006
9.	आर. मुरुगेशन	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	31.05.2006
10.	एम. के. नरसिंहा मूर्ती	लेखा अधिकारी	31.05.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	त्याग पत्र की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एस. एस. कण्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी.	30.12.2005
2.	अनेम श्रीदेवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी.	01.02.2006

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
3.	ए. जे. जयप्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी.	03.02.2006
4.	राजीव मल्होत्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी.	06.02.2006
5.	ए. रविकुमार शेठ्टी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी.	10.02.2006
6.	शिवकुमार ए. के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी.	13.02.2006
7.	प्रवीण कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी.	15.02.2006
8.	रामचन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. ई.	27.02.2006
9.	बी. टी. खादर लक्ष्मी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी.	24.03.2006
10.	पी. रोजा राणी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी.	31.03.2006
11.	के. कविता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी.	01.05.2006
12.	टी. कांतिमतिनाथन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. जी.	31.05.2006
13.	जी. मंजू भार्गवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी.	31.05.2006
14.	सिद्धार्थ सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी.	02.06.2006
15.	सुस्मिता भट्टाचार्या	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी.	06.06.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

दिनांक 5 मई 2008

शुद्धि-पत्र

सं. 3/1(1)/2008-1--इस विभाग के दिनांक 12.03.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम के डॉ. एम. ए. जार्ज के संबंध में क्रम सं. 2 में दिये गये पदनाम को 'चिकित्सा अधिकारी-एस. एफ.' के बदले 'चिकित्सा अधिकारी-एस. जी.' पढ़ा जाए।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2008

सं. एफ.6(1921)/2004-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग द्वारा उनके के मिसिल सं. 13016/3/2008-आई.ई.एस. के तहत दिनांक 05.03.2008 को जारी आदेश सं. टी-6/2008 का अनुपालन करते हुए आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में निदेशक, श्री सी. के. जी. नायर (जोकि दिनांक 01.09.2006 से 31.03.2008 तक शिक्षा छुट्टी पर हैं) को उनके आर्थिक कार्य विभाग में तैनाती होने पर दिनांक 01.04.2008 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 14 मई 2008

सं. एफ.6(1942)/2005-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 अप्रैल, 2008 के तहत सूचित सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन

का अनुपालन करते हुए, श्रीमती मंजुलिका गौतम, आई.ए.एस. (यूपी : 72), वरिष्ठ सलाहकार, योजना आयोग को दिनांक 14 मई, 2008 (अपराह्न) से स्थाई रूप से उनके मूल कैंडर अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2008

सं. ए-44011/4/2000-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग द्वारा उनके के मिसिल सं. 11016/5/2007-आई.ई.एस. के तहत दिनांक 01.05.2008 को जारी आदेश सं. पी-3/2008 का अनुपालन करते हुए योजना आयोग में उप सलाहकार पदों पर कार्यरत निम्नलिखित आई.ई.एस. के जे.ए.जी. अधिकारियों को दिनांक 15.10.2007 से 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में एन.एफ.एस.जी. प्रदान की जाती है:--

क्रमांक	नाम
1.	श्री के. एस. कलसुआ
2.	श्री अरूण कुमार
3.	श्री स्वपन कुमार मंडल

2. एन.एफ.एस.जी. प्रदान की जाने के परिणाम स्वरूप, उन्हें उनकी उप सलाहकार के पदों पर वैयक्तिक उन्नयन करते हुए निदेशक का पदनाम दिया जाता है।

3. उपर्युक्त अधिकारियों को प्रदान की गई एन.एफ.एस.जी., माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील सं. 1366-67/2004 तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट पिटिशन सं. 5953/2002 में अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. एफ.6(1955)/2005-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग द्वारा उनके के मिसिल सं. 13016/3/2007-आई.ई.एस. के तहत दिनांक 10.12.2007 को जारी आदेश सं. टी-33/2007 का अनुपालन करते हुए:--

(1) आई.ई.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में उप सलाहकार, श्री बल राम को कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चण्डीगढ़ में कार्यभार संभालने हेतु दिनांक 15.05.2008 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

(2) आई.ई.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चण्डीगढ़ में उप सलाहकार श्री वी. के. अत्री को योजना आयोग में कार्यभार संभालने हेतु दिनांक 15.05.2008 (अपराह्न) से आर. ई. ओ. चण्डीगढ़ से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 मई 2008

सं. के-13012/4/2007-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए : (1) श्री सुरेन्द्र सिंह, (2) श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी, (3) श्री शशी कान्त गुप्ता, (4) श्री बाल कृष्ण नारायण, (5) श्री राजेश दयाल खरे, (6) श्री शबीहुल हसनैन; और (7) श्री अभिनव उपाध्याय को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 9 मई 2008

सं. के-13026/1/2008-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री राजेन्द्र मल लोढा को उस तारीख से, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 मई 2008

सं. के-13027/2/2008-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश : (1) न्यायविद् श्री लक्ष्मी नारायण भित्तल, (2) न्यायविद् श्री नवाब सिंह, (3) न्यायविद् श्री मोहिन्द्र पाल, (4) न्यायविद् श्री हरबंस लाल, (5) न्यायविद् श्री शाम सुन्दर; और (6) न्यायविद् श्री करम चंद पुरी को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख से, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13028/1/2008-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश : (1) न्यायविद् श्री चतरा राम जाट, (2) न्यायविद् श्री गौरी शंकर सराफ; और (3) न्यायविद् श्री मोहम्मद रफीक को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख से, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-11017/4/2008-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा

भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री अशोक कुमार गांगुली को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 27 मई, 2008 को या इससे पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-11019/3/2008-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री इशरत मसरूर कुदूसी को, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री अशोक कुमार गांगुली का स्थानान्तरण मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप, उनके द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ने की तारीख से, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 मई 2008

सं. I-18011/3/2008-आईपीएस.IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बाबू लाल मीणा, आईपीएस (पंजाब : 2004) को दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

दिनांक 15 मई 2008

सं. I-18011/4/2007-आईपीएस.IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	ए. जी. बाबू आईपीएस (तमिलनाडु : 2004)	23.05.2007
2.	अविनाश कुमार, आईपीएस (तमिलनाडु : 2004)	27.12.2006

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मई 2008

सं. पीएफजी(928)/07-प्रशा-1--वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य लागत सलाहकार के कार्यालय के दिनांक 09.04.2008 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/8/2007-सीएस के अनुसार, श्री जी. जी. मित्रा ने 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लागत) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में दिनांक 17.04.2008 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक संयुक्त निदेशक (लागत) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

आर. सी. टली, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2008

सं. पीएफजी(947)/08-प्रशा-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 अप्रैल, 2008 के आदेश संख्या 5/1/2008-सीएस.1 (डेस्क) के अनुसरण में तथा कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) से कार्यमुक्त किए जाने के फलस्वरूप श्री एल. के. त्रिवेदी, सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ने दिनांक 21 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अवर सचिव का पदभार ग्रहण किया है।

आर. सी. टली, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2008

सं. क्यू/पी.ए-1/39/2008--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा. वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01 मई, 2008 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानांतरण रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं:--

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड
श्री स्कंद रेजन तायल	भा.वि.से. का ग्रेड III	भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा.वि.से. के ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-III में 01.05.2008 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-II में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2008

सं. 31 (फा. सं. ए-38011/2/2008-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री रतनेश्वर प्रसाद (आई. टी. : 1970) ने अधिवर्षिता की

आयु प्राप्त करने के पश्चात् कार्यकाल की बढ़ाई गई अवधि के पूरा होने पर दिनांक 31 मार्च, 2008 (अपराह्न) को कार्यालय छोड़ दिया है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 32 (फा. सं. ए-38011/2/2008-प्रशासन-1)--श्री एस. के. सिंघल, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी, (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1970), जोकि राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तैनात थे, दिनांक 31 मार्च, 2008 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 33 (फा. सं. ए-38013/4/2008-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एच. एस. मेंहदिया अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मार्च, 2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2008

सं. 34 (फा. सं. ए-19011/8/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री प्रसन्ना कुमार मिश्रा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को दिनांक 1 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश होने तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 35 (फा. सं. ए-19011/9/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री पी. सी. झा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 71) को दिनांक 1 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश होने तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 37 (फा. सं. ए-19011/11/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री विजय सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 72) को दिनांक 31 मार्च, 2008 (अपराह्न) से और अगले आदेश होने तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (को.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड) में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. 38 (फा. सं. 50/45/2008-प्रशासन-1).--भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के.स. से.) के निम्नलिखित नियमित सहायकों की पदोन्नति होने पर उन्हें दिनांक 3 अप्रैल 2008 (अपराह्न) से अगले आदेश तक राजस्व विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
	(सर्वश्री/सुश्री)
1.	एस. एस. निरवान
2.	संजय कुमार
3.	सुश्री मंजू चन्द्रा
4.	जगदीश कुमार
5.	सुरेश यादव
6.	सुश्री मंजुला शारदा
7.	सुश्री नरेश बधन

2. उपर्युक्त अधिकारियों की पूर्वोक्त अल्पकालिक पदोन्नति उन्हें नियमित नियुक्ति का कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी तथा उनके द्वारा इस ग्रेड में अल्पकालिक आधार पर की गई सेवा को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए जोड़ा नहीं जाएगा।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. 39 (फा. सं. ए-19014/10/2005-प्रशासन-1).--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 26 मार्च, 2008 के कार्यालय आदेश सं. 5/3/2004-रा.भा. (एस.) द्वारा श्रीमती सुरेखा बिन्दा को नियमित आधार पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद के लिए उनके नामांकन के परिणामस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति, दिनांक 26 मार्च 2008 से और अगले आदेश तक नियमित आधार पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2008

(भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनाएं)

सं. 25/2008 (फा. सं. ए-38012/14/2008-प्रशा.-II).--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत आयुक्त सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), गुवाहाटी श्री अनील तनेजा (डी ओ बी 22 अक्टूबर 1950) (आई आर एस सी एंड सी ई

1977) की सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2008 के प्रभाव से स्वीकृत करते हैं।

आलोक अग्रवाल,

दिनांक 30 अप्रैल 2008

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) संस्थापना

सं. 26/2008 (फा. सं. ए-38012/10/2008-प्रशा.-II).--राष्ट्रपति, श्री रवि वासुदेव, सहायक आयुक्त का महानिदेशक मूल्यांकन, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई कार्यालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2008 अपराह्न से नियम 48(1) सी सी एस पेंशन नियमावली, 1972 के अंतर्गत स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2008

सं. ए-19011/8/2008-प्रशा.2.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 अप्रैल 2008 के आदेश सं. 5/1/2008-सीएस-1 (डेस्क) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के सीएसएस संवर्ग के डेस्क अधिकारी श्री ओ. पी. कनौजिया (सीएसएल सं. 6224) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में 13 मई, 2008 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री ओ. पी. कनौजिया की तदर्थ आधार पर उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने या सीएसएस के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा,
- तदर्थ नियुक्ति को कभी भी बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है,
- यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 में दिनांक 11 जनवरी, 2007 के आदेश के भी अधीन होगी।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2008

सं. ए-12026/5/2007-प्रशा.I.--राष्ट्रपति, श्री अश्विनी कुमार तिवारी, आईडीएस (1994) को दिनांक 12 मई, 2008 के पूर्वाह्न से 11 मई, 2012

के अपराहन तक प्रभावी चार वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 4 वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, व्यव विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2008

सं. 3/5/2008-ई आई एंड ई पी/ई-IV.--सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उनके नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् में सुश्री शशि सरिन, निदेशक (आई एंड एक्स सी) को दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से सेवा मुक्त किया जाता है।

ए. के. लखनपाल, अवर सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2007

सं. ए-45011/2/2007-स्थापना-I.--राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित समूह 'ग' आशुलिपिकों को उनके सामने दी गई तारीख से 31 दिसम्बर 2007 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले होगा पूर्णतः तदर्थ आधार पर उसी संवर्ग में निजी सचिवों (समूह 'क' और 'ख' विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
(i)	श्री पी. सी. शर्मा, भारी उद्योग विभाग	29.10.2007 (पूर्वाह्न)
(ii)	श्री टी. ए. अब्राहम, भारी उद्योग विभाग	31.10.2007 (पूर्वाह्न)

2. तदर्थ नियुक्ति से, नियुक्त किए गए अधिकारियों को उस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के समूह 'क' और 'ख' (विलयित) निजी सचिव में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा और तदर्थ नियुक्तियों को बिना कारण बताये कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, इन नियुक्तियों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 31 मई 2007 और 1 मार्च 2007 की ओ एम सं. 5/8/2006 सी. एस. 11 का शर्तों भी लागू होंगी।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. ए-45011/2/2007-स्था. I.--वर्ष 2004 के लिए आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) की चयन सूची में नामों को शामिल किए जाने

के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 12.12.2006 की का. जा. सं. 5/5/2006-सीएस-II तथा दिनांक 16.11.2007 की का. जा. सं. 5/18/2006-सीएस-II के द्वारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सीएसएसएस संवर्ग में नामांकित किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से अगले आदेश तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के सीएसएसएस संवर्ग में नियमित आधार पर निजी सचिव आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	कोट रैंक	तैनाती	किस तारीख से
1.	सुश्री सीमा रस्तोगी	विभागीय परीक्षा (आरएल-02)	टैरिफ आयोग	27.12.2006 (पूर्वाह्न)
2.	श्री राकेश	वरिष्ठता	भारी उद्योग विभाग	16.11.2007 (पूर्वाह्न)
3.	श्री हर्षवर्धन सिंह रावत	वरिष्ठता	मंत्रिमंडल सचिवालय में (पूर्वाह्न)	16.11.2007 (पूर्वाह्न)

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 09 अप्रैल 2008

सं. ए-45011/2/2008-स्था-I.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 27 फरवरी, 2008 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/16/2007-सी.एस. I (एस) की अनुसरण में, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) में सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को जो चयन सूची 1994 (सामान्य), चयन सूची 1995 (अनुसूचित जाति वर्ग) और चयन सूची 1997 (अनुसूचित जन जाति वर्ग) के हैं, उनमें से प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से 30.6.2008 तक अथवा जब तक नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध नहीं हो जाते, जो भी पहले होगा, पूर्णतः तदर्थ आधार पर इस विभाग के सीएसएसएस कैडर में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	एससीएसएस सं.	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति का स्थान
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	श्रीमती शशि मल्हात्रा	70/1994	19.3.2008 (पूर्वाह्न)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
2.	श्रीमती मीना सोनी	86/1994	19.3.2008 (पूर्वाह्न)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
3.	श्रीमती जसोद कसमगरी	128/1994	19.3.2008 (पूर्वाह्न)	भारी उद्योग विभाग
4.	राकेश कुमार सिंह	129/1994	31.3.2008 (पूर्वाह्न)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
5.	अरुण कुमार शर्मा	198/1994	19.3.2008 (पूर्वाह्न)	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

1	2	3	4	5
6.	श्रीमती मधु महेन्द्र	199/1994	19.3.2008 (पूर्वाह)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
7.	रूप लाल	298/1995	19.3.2008 (पूर्वाह)	भारी उद्योग विभाग
8.	विजय कुमार	352/1995	19.3.2008 (पूर्वाह)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
9.	एन. ए. कुरेशी	वरिष्ठता कोटा/1997	19.3.2008 (पूर्वाह)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

ऊपर आदेश की गई नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हैं और इनसे उक्त अधिकारियों को उस पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने, अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता आदि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तदर्थ नियुक्तियां तब तक जारी रहेंगी, जब तक अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवार वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के जरिये उपलब्ध नहीं हो जाते। यदि इन दो श्रेणियों में से किसी के भी लिए नियमित नियुक्ति हेतु तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों द्वारा योग्यता प्राप्त न कर पाने की स्थिति में, उन्हें उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तारीख को नियमित अनुभाग अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन्हें कैडर आवंटित करने पर कार्य भार ग्रहण कर लेंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अप्रैल 2008

सं. ए-12011/5/2008-मा. सं. II.--राष्ट्रपति, श्री सतीश चन्द्र, आईएसएस (आन्ध्र प्रदेश : 86) को 25 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति करते हैं।

एम. सुब्रमण्यन, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 13 मई 2008

सं. ए-19011/4/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री के. राजेश्वर राव, संयुक्त सचिव, आईएसएस (एमटी : 88) को उनके 5 वर्षों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि की शेष अवधि अर्थात् 26.03.2011 तक के लिए उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 18,400-22,400/- रुपए के वेतनमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में नियुक्ति करते हैं।

श्री के. राजेश्वर राव ने दिनांक 09.05.2008 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. मोहन्ती, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 1 मई 2008

सं. ए-11013/01/07-प्रशा. 1(ए).--राष्ट्रपति, श्री ए. जे. कुरियन, आई.एफ.एस. (एजीएमयूटी : 87) निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जो इस समय माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, को निदेशक स्तर पर माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री के निजी सचिव के रूप में 25.4.2008 से तथा 18.06.2010 तक, सात वर्ष के सम्मिलित केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल के अंतर्गत, शेष अवधि के लिए माननीय मंत्री के कार्यकाल तक अथवा माननीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की गणना 19.06.2003 से की जाएगी।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2008

सं. ए-12025/01/05-प्रशा. 1(ए).--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.04.08 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/18/2006-सी.एस. II के द्वारा वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत वर्ष 2004 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'ए एण्ड बी' (विलयित) (निजी सचिव) की चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्रीमती ज्योति भाटिया, नियमित ग्रेड 'सी' आशुलिपिक, जो कि जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्यरत थी, को 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में आशुलिपिक ग्रेड 'ए एण्ड बी' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में 01.05.2008 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 9 मई 2008

सं. एस.एम./01/34/2005.--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर कार्यरत श्री टूमटी एस. कुमार (अनुसूचित जाति) को उसी विभाग में 12,000-375-16,500 रुपये के वेतनमान में नान-फंक्शनल सेकंड ग्रेड अधीक्षक सर्वेक्षक/उप निदेशक के पद पर दिनांक 10 अप्रैल, 2008 से अगले आदेशों तक सहर्ष स्थापित करते हैं।

बी. के. मंथन, डैस्क अधिकारी

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मई 2008

सं. पृ.वि.मं./11/20/2006-स्था.--इस मंत्रालय की दिनांक 8 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. पृविमं./18/09/2007-स्था. में आंशिक संशोधन

करने हुए राष्ट्रपति, डॉ. सोमेश्वर दास, वैज्ञानिक 'एफ' (16,400-450-20,000/- रुपये) को सुनम्य अनुपूरक योजना (एफ.सी. एस.) के अन्तर्गत उनको यथावत् (in-situ) आधार पर 18.3.2008 से सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के वैज्ञानिक 'जी' (18,400-500-22,400/- रुपये) के ग्रेड में पदोन्नत करते हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2008

सं. ए. 12025/24/2007-सी एच एस-IV.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. (श्रीमती) मालिनी आर. कपूर को दिनांक 12 मार्च, 2008 के पूर्वार्हत से अगले आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (सूक्ष्म जीव विज्ञान), के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 16 मई 2008

सं. ए. 12025/31/2006-सी एच एस-III.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. भूपेन्द्र कुमार बजाज को दिनांक 5 सितम्बर, 2007 के अपराहत से अगले आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में तंत्रिका विज्ञान की विशेषता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली: 110011, दिनांक 15 मई 2008

सं. ए. 12025/159/2006-सी.एच.एस.-I.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. निशाद खान को दिनांक 27.11.2007 के पूर्वार्हत से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8 000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. निशाद खान को संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्षों तक परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

(परिवार और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. ए. 38016/11.2007-स्वा.-III.--स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कार्यरत श्री सुन्दर सिंह ठोनी, ज्येष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2008 (अपराहत) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2008

सं. ए.32013/03/2007-स्थापना I.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 अप्रैल, 2008 के आदेश संख्या 5/01/2008-सीएस (डेस्क) जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 मई, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित है, के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	निम्नलिखित तारीख से
1.	श्री प्रेम प्रकाश	29.04.2008 (पूर्वाह्न)
2.	श्री पवन कुमार	01.05.2008 (पूर्वाह्न)

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय कारण बताए बगैर समाप्त किया जा सकता है।
- जिन अधिकारियों ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्तर 'घ' का प्रशिक्षण नहीं लिया/पूरा नहीं किया है उनके लिए दो वर्षों की अवधि के भीतर स्तर 'घ' प्रशिक्षण लेने तथा उसे सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।
- उपर्युक्त नियुक्ति एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 1720/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के भी अधधीन होगी।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2008

सं. 27-2725/2007-स्था. I.--राष्ट्रपति, श्रीमती वीना भल्ला को दिनांक 26 फरवरी 2008 के पूर्वार्हत से आगामी आदेश होने तक, 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 अप्रैल 2008

सं. 27-2617/2005-स्था.-I.--राष्ट्रपति, श्री एस. एल. भट्ट, भा.प्र. सेवा (ज. एवं क. : 76) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में दिनांक 28 अप्रैल 2008 के पूर्वाह्न से 22,400-525-24,500/- रुपए के वेतनमान में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2008

सं. 32012/03/2007-स्था.-II.--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री एस. के. कौल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (फसल) (6,500-10,500/- रु.) की कृषि एवं सहकारिता विभाग में 7,500-12,000/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (फसल) के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 12 अप्रैल (पूर्वाह्न) से 11 अक्टूबर, 2008 (अपराह्न) तक अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे वरिष्ठता अथवा सहायक निदेशक (फसल) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए और अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 27 मार्च 2008

सं. 32011/07/2007-स्था.-II.--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एनआरएम/आरएफएस), श्री आर. ए. एस. पटेल को दिनांक 25 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से प्रोन्नत करने पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (एनआरएम/आरएफएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 38011/5/2007-स्था.-II.--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर श्री एम. एल. राम, सहायक विकास अधिकारी (खाद), वेतनमान 7,500-250-12,000/- रु., कृषि एवं सहकारिता विभाग 31 मार्च, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2008

सं. 32011/2/2008-स्था.-II.--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कृषि एवं सहकारिता विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (खाद), श्रीमती नीरजा जोशी को दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से 7,500-250-12,000/- रु. के वेतनमान में सहायक विकास अधिकारी (खाद) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. 38011/6/2007-स्था.-II.--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में अपर आयुक्त (एन आर एम/आर एफ एस) श्री जोस सी. सैमुअल 30 अप्रैल, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 38011/7/2007-स्था.-II.--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में सहायक आयुक्त (एन आर एम/आर एफ एस) श्री डी. आर. सिंह 30 अप्रैल, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2008

सं. ए-12026/3/2006-ईए.--राष्ट्रपति, प्रो. एस. महेन्द्र देव, निदेशक, आर्थिक एवं सामाजिक सेवा केन्द्र, हैदराबाद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में 26,000/- रुपए (निश्चित) के वेतनमान में अध्यक्ष के पद पर 6 मई, 2008 पूर्वाह्न से तीन वर्ष से अनधिक अवधि अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 12 मई 2008

सं. ए-19012/3/2008-ईए.--राष्ट्रपति, श्री आर. सी. मीना, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के वरिष्ठ सावधिक वेतनमान अधिकारी (एसटीएस) को दिनांक 19.11.2007 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में सहायक आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. 12-21/2005-प्रशासन-3.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डा. संदीप कुमार सिंह को सीधी भर्ती के आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में 1 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (एन आई ए एच), बागपत, उत्तर प्रदेश में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. जैन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 मई 2008

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सं. 2-6/2006-मात्स्यकी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण, मुम्बई वेस के वरिष्ठ मात्स्यकी वैज्ञानिक श्री जी. के. अवहद को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2008

सं. 22-30/2006-प्रशासन--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.04.2008 के आदेश सं. 4/14/2008 ई ओ (एस एम-1) के अनुपालन में सुश्री शालिनी प्रसाद, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 85), ने राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य-सचिव पद को छोड़ दिया है और उनकी सेवाएं दिनांक 28.04.2008 के पूर्वाह्न से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर पर अनिवार्य प्रतीक्षा में रखी गई हैं।

श्रीमती शकुन्तला जैन, अवर सचिव

सं. 3-21/2007-मात्स्यकी (प्रशासन)--केन्द्रीय मत्स्य नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन के निम्नलिखित श्रेणी "क" पदों को एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से पुनः पदनामित किए जाते हैं :--

क्र. सं.	मौजूदा पदनाम	संशोधित पदनाम
1.	उप निदेशक (प्रयोगात्मक मत्स्यन)	उप निदेशक
2.	महायक निदेशक	वरिष्ठ अनुदेशक (मत्स्यन प्रौद्योगिकी)
3.	वरिष्ठ अनुदेशक (सामान्य)	वरिष्ठ अनुदेशक (प्रशिक्षण)
4.	वरिष्ठ अनुदेशक (नौका निर्माण)	वरिष्ठ अनुदेशक (नौसेना वास्तुकला)

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

दिनांक 8 मई 2008

सं. 3-2/2008-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.05.2008 के आदेश सं. 9/18/2008 ई ओ (एस एम-1) के अनुसार, राष्ट्रपति, श्री के. राजेश्वर राव, भा.प्र.से. (एम टी : 88), निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु चयन किए जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 08.05.2008 के अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

श्रीमती शकुन्तला जैन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

केन्द्रीय मात्स्यकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2008

बेंगलूर-560031, दिनांक 14 मई 2008

सं. ए 12(25)/2007-सी.ई.एफ.(यू पी एस सी)--निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलूर के आर्थिक अन्वेषक, श्री बी. वेंकटरामय्या को 12.05.2008 पूर्वाह्न के विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर आगामी आदेशों तक अस्थायी हैसियत से उसी संस्थान में ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक रु. 6,500-200-10,500/- के पद पर पदोन्नति करने हैं।

के. ओमप्रकाश, निदेशक

के. एन. मिश्रा, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2008

सं. 3/2/2002-स्थापना--राष्ट्रपति जी, डा. मंगला राय, को सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयरी) तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा. कृ. अ. प.) के पद पर नियुक्ति की अवधि को 1 सितंबर 2007 से और अगले आदेशों तक दो वर्ष की अवधि तक किए बढ़ाते हैं।

देवेन्द्र कुमार छतवाला, अवर सचिव

सं. 3-7/2004-एन आई-11/डी.डी.-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में श्री एस. के. मुखर्जी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, (एलिम्को) को श्री ए. के. भट्टाचार्य के स्थान पर राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में, तत्काल प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सं. 3-7/2004-एन आई-11/डी.डी.-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में श्री के. एस. लुङ्गु, आई.ई.एस., अपर विकास आयुक्त (एस. एस. आई.) को श्री जवाहर सरकार, आई.ए.एस. (डब्ल्यू.बी.-75) के स्थान पर राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में, तत्काल प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, नियुक्त करते हैं।

के. एन. मिश्रा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110115, दिनांक 28 अप्रैल 2008

सं. 11C36/09/2005-पी.सी. एंड वी.--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11036/09/2005-पी.एस. एंड वी. (1), दिनांक 13.11.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 5(1) के संदर्भ में इस मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग तथा उपरोक्त अधिसूचना के क्र. सं. 7 पर दर्शाए गए विशिष्ट मामलों के संबंध में श्री एस. एन. हलधर, उप-सचिव, को श्री एस. के. गुप्ता, उप-सचिव के स्थान पर एतद्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एस. एन. हलधर का सरकारी पता एवं दूरभाष सं. निम्नानुसार है :--

कमरा सं. 216-एच,
डी विंग शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110115
दूरभाष सं. 23385487

3. उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 7 पर दर्शाया गया श्री एस. के. गुप्ता, उप-सचिव का नाम इस मंत्रालय से स्थानान्तरण के कारण हटाया गया समझा जाए।

बी. बी. शर्मा, उप-निदेशक (पी.सी. एंड वी.)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 मई 2008

सं. 2(8)/2007-का. I (खण्ड-II)--राष्ट्रपति जी ने श्री कृष्ण कुमार, बी (कर्मचारी कोड संख्या-963) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 28.04.2008 के पूर्वार्ह से 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. उन्हें उपर्युक्त वेतनमान के न्यूनतम सोपान पर वेतन मिलेगा।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. 19(5)/2006-कार्मिक--राष्ट्रपति, एतद्वारा डॉ. काशी नाथ, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 66) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक-जी के पद पर दिनांक 7 अप्रैल, 2008 से और अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(5)/2006-कार्मिक--राष्ट्रपति, एतद्वारा सुश्री अंजना चौधरी, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 87) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक-जी के पद पर दिनांक 7 अप्रैल, 2008 से और अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(5)/2006-कार्मिक--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री ए. वेंकटेशन, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 102) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक-जी के पद पर दिनांक 7 अप्रैल, 2008 से और अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(5)/2006-कार्मिक--राष्ट्रपति, एतद्वारा सुश्री देबजानी नाग, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 107) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक-जी के पद पर दिनांक 7 अप्रैल, 2008 से और अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(5)/2006-कार्मिक--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री बी. वेंकटेश्वर शर्मा, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 120) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक-जी के पद पर दिनांक 7 अप्रैल, 2008 से और अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(5)/2006-कार्मिक--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री श्रीधर शास्त्री ए, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 141) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक-जी के पद पर दिनांक 7 अप्रैल, 2008 से और अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(5)/2006-कार्मिक--राष्ट्रपति, एतद्वारा डॉ. अंबरीश कुमार, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 1506) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक-जी के पद पर दिनांक 7 अप्रैल, 2008 से और अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, निदेशक (कार्मिक)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 5 मई 2008

विषय : भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के वरिष्ठ समयमान (10,000-325-15,200/- रु.) में प्रोन्नति ।

सं. 4-5/2008-एस.पी.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के निम्नलिखित कनिष्ठ समयमान के अधिकारियों को कथित सेवा के वरिष्ठ समयमान (10,000-325-15,200/- रु.) में 01.04.2008 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम	अधिकारी का नाम	बैच	वर्तमान तैनाती में
	मर्वश्री		
1.	वेदी एन. बी.	2003	तमिलनाडु सर्किल
2.	सिंह अभिषेक कुमार	2003	उत्तरांचल सर्किल
3.	सुश्री प्रीति अग्रवाल	2003	उत्तर प्रदेश सर्किल
4.	सुश्री गणेश शर्मा	2003	दिल्ली सर्किल
5.	मुद्गल दुष्यंत	2003	राजस्थान सर्किल
6.	रशंट सईद	2003	सहा. महानिदेशक (आई आर) डाक निदेशक
7.	कुमार चिनोद	2003	दिल्ली सर्किल
8.	कुमार मनोज-I	2003	दिल्ली सर्किल

2. अधिकारी यदि एक. आर.-22 (i) (क) (i) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्हें आदेश के जाने होने की तारीख से एक माह के अंदर विकल्प देना होगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 22011/2/91 स्था. दिनांक 14.9.92 जिसे इस कार्यालय के ज्ञापन सं. 25-19/88-एस.पी.जी. दिनांक 13.10.92 के तहत परिचालित किया गया था, में उल्लिखित किस्म का कोई मतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कर्मचारी के खिलाफ लिखित है, तो इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्काल भेजी जाए और संबंधित अधिकारी को इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए।

4. संगत प्रभार रिपोर्ट इस कार्यालय को नियत समय पर और शीघ्रानशीघ्र भेज दी जाए।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2008

सं. 3-10/1/2004-एन. एस. (पाठ)-- श्री भूपिन्दर सिंह, रेल निरीक्षणार्थ सेवा के राजपत्रित अधिकारी समूह "क" जो इस मंत्रालय के रेल सं. 50 आयोग में रेल संरक्षा आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे थे,

अपनी अधिवर्धित की आयु पूरी कर लेने के बाद दिनांक 30 अप्रैल, 2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ओमा नन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2008

सं. ईआरबी-1/2008/3/1--श्री मोती राम, सहायक (वेतनमान 6,500--10,500/- रु.) रेलवे बोर्ड को 10.04.2008 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति आधार पर रेलवे बोर्ड में 6,500--10,500/- रु. के ग्रेड में नयाचार अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, (रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 12 मई 2008

सं. ए-19012/1/2005-ई-1--राष्ट्रपति, श्री कंवर सिंह यादव को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में दिनांक 17.04.2008 (पूर्वाह्न) से 7,500-250-12,000/- रुपए के वेतनमान में (केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) समूह 'ख' में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए-19011/5/2008-ई-1--राष्ट्रपति, श्री सी. पी. सिंह को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 1 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न) से 8,000--13,500/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (आई. ई. एस. के जूनियर टाइम स्केल ग्रेड IV) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 5 मई 2008

सं. ए. 32014/2/2004-ई-II. (बी)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22/2008 के का. जा. सं. 5.11.2007 सी. एस. II के अनुसरण में, विहत मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के समूह 'ग' की आशुलिपिक श्रीमती मनजीत कौर की पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 30.4.2008 से 10.6.2008 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव [आशुलिपिक समूह 'क' और 'ख' (विलयित)] के पद पर नियुक्ति करते हैं।

के. एस. राव, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मई 2008

सं. 12/2008 फा. सं. 2/4/2008-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, श्री जे. एस. सहरावत, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं यदोन्नति विभाग) में अवर सचिव हैं, को 09 मई 2008 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक के लिए, विद्युत मंत्रालय के चयन ग्रेड में तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उपरोक्त नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/9/2006-सी. एस. I दिनांक 02 मई, 2008 में निहित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

दिनांक, 15 मई 2008

सं. 13/08 (फा. सं. 2/2/05-प्रशा. दो)--राष्ट्रपति, श्री मलय श्रीवास्तवा भा. प्र. से. (म. प्र. : 1990) को, 15 मई, 2008 के पूर्वाह्न से, 05 मई, 2013 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विद्युत मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

मुद्रण निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2008

सं. 25/1/2006-प्रशा.-II (खण्ड-II)--राष्ट्रपति, सुश्री माधुरी डबराल, (आई. पी. ओ. एस.-1989) को दिनांक 09.05.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुद्रण निदेशालय में 16,400-450-20,000/- रु. के वेतनमान में मुद्रण निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री माधुरी डबराल को वेतन एवं भत्ते समय-समय पर जारी केन्द्रीय सरकार के सामान्य आदेशों के तहत नियमित किये जाएंगे।

पुष्पा जार्ज, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2008

सं. ए-33022/01/2006-प्रशा. I.--राष्ट्रपति, श्रम और रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में श्री कमल बाखरू, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को दिनांक 3 अप्रैल, 2008 (पूर्वा.) से श्रम और रोजगार मंत्रालय के डेस्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 9th May 2008

No. RS/3/7(1)/2008/25-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Bansi Lal in the grade of Translator in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Editor in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on ad-hoc basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

2. The services rendered on ad-hoc basis by Shri Bansi Lal in the grade of Editor will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

C. B. RAI, Jr. Dir.

The 12th May 2008

No. RS/6/4/2008/26-Perl.—Shri G. Narahari has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the personal staff of Chairman, Committee on Industry (Shri V. Hanumantha Rao) with effect from the forenoon of 11th April, 2008, until further orders.

2. The appointment of Shri G. Narahari is at the discretion of the present Chairman, Committee on Industry and will be co-terminus with the term of his office.

C. B. RAI, Jr. Dir.

The 19th May 2008

No. RS/3/8(1)/2008/27-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Dharmendra Kumar Gautam, Security Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director (Security) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jr. Dir.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 28th March 2007

No. B.22012/1/2005-III.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (Act No. 19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act (except Section 6-A) shall apply to the Provident Funds established for the benefit of the employees of the North Eastern Space Applications Centre (NE-SAC), Shillong, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (Act No. 19 of 1925), the Central Government hereby adds the name of the "North Eastern Space Applications Centre, Shillong" to the Schedule to the said Act.

B. V. RAMANA REDDY, Dir.

Bangalore-560094, the 29th April 2008

No. 2/1(1)/2008-L.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Advance Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2008 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Kalpna Mishra	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
2.	Manish Shekher	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
3.	N. Rama Kumar Acharyulu	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
4.	B. K. Das	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer SD
5.	Priyanka Upadhyay	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 2/1(1)/2008-L.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of January 28, 2008 and until further orders :—

Sl. No.	Name
	Shri/Smt./Kum.
1.	Vijender Basi Reddy
2.	Rajesh Reddy Datla
3.	Anuradha Kathour
4.	Susmitha Mukka

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 2/1(2)/2008-L.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sri G. Ravi Kumar, Scientist/Engineer-SC in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space with effect from the afternoon of 04.01.2008.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 2/1(1)/2008-L.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Mahamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space on

temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Anoop C. R.	15.12.2006
2.	Ra esh R.	07.09.2007
3.	Ba u Francis	28.05.2007
4.	Abhishek Sharma	28.05.2007
5.	Karthik R.	08.08.2007
6.	Anil Jaiswal	26.02.2008

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2007 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Kailasanathan P. P.	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
2.	Raju P. Thomas	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
3.	N. R. Vishnu Kartha	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
4.	Poly P. John	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
5.	Jayarayanan M.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
6.	Karthikeyan C.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
7.	Venkatesh H. S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
8.	Kumar K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
9.	Jayan N.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
10.	Ajay Lal P. R.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
11.	Bejoy John	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
12.	Krishna Mohan Shanbhogue K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
13.	Paul Mony C.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
14.	Murugesan N.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
15.	Viswanath V.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
16.	George Oommen	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
17.	Vijayan N.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
18.	Jagadeesha Chandran S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
19.	Joseph K. A.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
20.	Sunil S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
21.	Hameed Rawther P. S	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
22.	Beena Joseph	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
23.	Sathish Y.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
24.	Ramesh Babu M.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
25.	Suresh R.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
26.	Kannan B.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
27.	Elango P.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
28.	Radhakrishnan R.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
29.	Senthamarai Kannan R.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
30.	Somasundaram P.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
31.	Benzigar Rajan A.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
32.	Subahar N.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
33.	Ayyappa B.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
34.	Pankaj H. Pujjal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
35.	Arivazhakan R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
36.	Ajith S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
37.	Kamran Ahmed	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
38.	Ponnusamy P. N.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
39.	Ramesh Babu M.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
40.	Vani K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
41.	Subbulakshmi K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
42.	Arumuga Perumal S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
43.	Tamil Selvan R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
44.	Sweet Annie Grace S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
45.	Vijayakumar T. R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
46.	Govindarajan M.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
47.	Valli V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
48.	Surendran Achary N.	Sr. Technical Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
49.	Regis Wellington M.	Sr. Technical Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
50.	Velusamy S.	Sr. Technical Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
51.	Radhakrishnan M. R.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
52.	Devasia V. J.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
53.	Francis Varkey	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
54.	Shivaramaiah G.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
55.	Singh C.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
56.	Manikandan G.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
57.	Hari Prasath H.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(1)/2008-1.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala of the Department of Space in an officiating capacity and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted	Date
1	Shri/Smt./Kum. Padmakar R.	Personal Assistant	Purchase & Stores Officer	08.10.2007
2	Mahadevan B.	Asst. Purchase & Store Officer	Purchase & Stores Officer	27.04.2007

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(2)/2008-1.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relieve
1	Shri/Smt./Kum. Muhammed Arshad P.	Scientist/Engineer-SD	13.06.2007
2	Aralakasu K.	Scientist/Engineer-SD	28.09.2007
3	Bahadur Kumar	Scientist/Engineer-SC	19.04.2007
4	Gopi George	Scientist/Engineer-SC	06.07.2007
5	SNV Ravi Kiran Kumaraji	Scientist/Engineer-SC	12.07.2007
6	Anupam Roy	Scientist/Engineer-SC	23.07.2007
7	Niraj Kumar Mishra	Scientist/Engineer-SC	02.08.2007
8	Baskaran N.	Scientist/Engineer-SC	13.08.2007
9	Satyandrayana Emami V. R.	Scientist/Engineer-SC	04.10.2007
10	Sisir Mahby	Scientist/Engineer-SC	13.11.2007

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(2)/2008-1.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relieve
1	Shri/Smt./Kum. Radhakrishnan S.	Scientist/Engineer-G	31.10.2007 (AN)
2	Mali G. S.	Scientist/Engineer-SG	30.06.2007 (AN)
3	Moses G.	Scientist/Engineer-SG	31.07.2007 (AN)

1	2	3	4
4	Shri/Smt./Kum. Samuel Jayaprakash S.	Scientist/Engineer-SG	31.08.2007 (AN)
5	Balachandran Thampuran	Scientist/Engineer-SF	30.04.2007 (AN)
6	Lokadasan N.	Scientist/Engineer-SF	31.05.2007 (AN)
7	Prathapachandran Pillai M. P.	Scientist/Engineer-SF	30.09.2007 (AN)
8	Sreeramechandran R.	Scientist/Engineer-SF	31.10.2007 (AN)
9	Gopinathan Nair K. R.	Scientist/Engineer-SE	30.04.2007 (AN)
10	Solomon Chari Chandra S.	Scientist/Engineer-SE	31.08.2007 (AN)
11	Janardhanan N.	Scientist/Engineer-SE	31.07.2007 (AN)
12	Daniel Fernando	Scientist/Engineer-SD	28.09.2007 (AN)
13	John M. C.	Sr. Purchase & Stores Officer	30.03.2007 (AN)
14	Ramachandran Pillai K. P.	Purchase & Stores Officer	31.05.2007 (AN)

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(2)/2008-1.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement the following Scientists/Engineers-SE in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relieve
1	Shri/Smt./Kum. Muthukumarar G.	Scientist/Engineer-SG	10.09.2007 (FN)
2	Chandra Prabhakaran D.	Scientist/Engineer-SG	07.11.2007 (FN)

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

The 30th April 2008

No. 5/1(1)/2008-1.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 10.02.2006 and until further orders

Sl. No.	Name	Post to which promoted
1	Shri/Smt./Kum. N. K. Malik	Outstanding Scientist
2	S. C. Rastogi	Scientist/Engineer-G

1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
3.	V. Sridhara Murthy	Scientist/Engineer-G
4.	R. S. Ekkundi	Scientist/Engineer-G
5.	N. Pralhad Rao	Scientist/Engineer-G
6.	K. V. V. S. S. R. Anjaneyulu	Scientist/Engineer-G
7.	Dr. K. Badari Narayana	Scientist/Engineer-G
8.	M. Anandurai	Scientist/Engineer-G

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri V. S. Ramkumar as Administrative Officer in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 24.04.2006 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint Shri P. P. Gupta, Scientist/Engineer-G as Scientist/Engineer-H in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 17.01.2006 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2006 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
1.	K. N. Suryanarayana Rao	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
2.	B. N. Baliga	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
3.	V. Sambasiva Rao	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
4.	N. C. Bhat	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
5.	Parimal Kumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
6.	Chitra Ramamurthy	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
7.	V. Venkatesh	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
8.	K. T. Rama Prasad	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
9.	A. S. Laxmiprasad	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
10.	Dr. V. K. Hariharan	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
11.	T. Krishnamurthy	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2006 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. E. Krishna Kumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
2.	Sreenivasa Murthy H. R.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
3.	Usha D. Shastri	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
4.	Vijayakumar Pujari	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
5.	B. Kripasagar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
6.	K. S. Sreeram	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
7.	N. Prasad	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
8.	Louis A.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
9.	G. Ananda Chandran	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
10.	H. A. Venkatesh Prasad	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
11.	M. Ramesh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
12.	Iftiqar Hussain	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SF
13.	Nalini Raghvan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
14.	Prakash K. S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted	Date of Promotion
	Shri/Smt./Kum.		
1.	M. Ramadas	Administrative Officer	04.01.2006
2.	Satyanarayana P.	Accounts Officer	23.01.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre,

Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2006 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Rakesh Kumar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
2.	S. Srividhya	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
3.	Srikanth Zolgar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
4.	Ritu Kandhal	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
5.	Anuj Soral	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
6.	S. Ramabadrar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
7.	K. Balaji	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
8.	Abhijit Avinash Adoni	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
9.	B. Karthikeyan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
10.	C. S. Gurudath	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
11.	Kamaljeet Singh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
12.	G. N. V. Prasad	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
13.	K. R. Yogesh Prasad	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
14.	P. Lakshmanasamy	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
15.	Rajeev Mathotra	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
16.	G. Meena	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
17.	Ranjana Paramanik	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
18.	A. Nithyapriya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
19.	Munish Kumar Aggarwal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
20.	B. T. Khadar Lakshina	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2006 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Ramana Murthy A. V.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
2.	Shrinivas A. Rudrol	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
3.	Divya Gomes	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
4.	C. K. Radhakrishnan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
5.	Ram Mohan Mishra	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
6.	Pradeep K. Peter	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
7.	N. Sivabalasubramanian	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
8.	Lalitha S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
9.	P. Malathi	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
10.	P. Vankata Narasimha Murthy	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
11.	K. Sita Manohar Reddy	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
12.	V. Murali Krishna	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
13.	M. R. Raghavendra	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
14.	Anant Shripad Rao Athavale	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
15.	Padmini N. Vijayakumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
16.	S. Sudhakar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
17.	M. Saravanan	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
18.	Naadini Harinath	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
19.	Sharada S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
20.	Anup Kumar Jain	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2006 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Niveditha B. K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
2.	R. Vanitha Devi	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
3.	Satish Sharma	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
4.	Jiwan Kumar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
5.	S. Ranjee	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
6.	P. Murali Krishna	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
7.	Neeraj Kumar Satya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
8.	Navneet Gupta	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
9.	T. Lakshmana Kishore	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
10.	Muddaser Mohiyuddin	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
11.	Satyamurayana Kumari B.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
12.	Sajith P.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
13.	Lopamudra Mishra	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
14.	Nitin Kumar Jain	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt/Kum	
1.	Shoma Chandorkar	10.02.2006
2.	Manas Sarkar	13.02.2006
3.	Sujithkumar N.	22.02.2006
4.	Shiv Kumar Kedia	03.03.2006
5.	Kannikanti Usha Devi	08.03.2006
6.	P. R. Saritha	10.03.2006
7.	Sajiv Kumar J. S.	13.03.2006
8.	Nawab Ahmad	20.03.2006
9.	M. P. Rijesh	23.02.2006
10.	Venkata Sastry Vadlamani	23.02.2006
11.	S. Farzana Banu	23.02.2006
12.	Vikas Kumar Srivastava	23.02.2006
13.	Prasob Sunny	23.02.2006
14.	Ankit Agarwal	23.02.2006
15.	Anand Dwivedi	23.02.2006
16.	Amit Maji	23.02.2006
17.	Tanuja Abhijit Patki	24.02.2006
18.	G. Balaji	24.02.2006
19.	Balaji R.	22.03.2006
20.	V. Kamalapriya	24.03.2006
21.	V. Sampath Kumar	29.03.2006
22.	Kundan Karma	13.04.2006
23.	Sumesh M. A.	21.04.2006
24.	Bezawada Ravi Kiran	25.05.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned person as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt/Kum	
1.	Sreekumar V.	10.01.2006
2.	S. Shyam Sunder	10.01.2006

1	2	3
	Shri/Smt/Kum	
3.	Prashanth P. S.	10.01.2006
4.	Anurag Tyagi	11.01.2006
5.	Aras Kumar R.	11.01.2006
6.	Chaitanya P.	11.01.2006
7.	Karala Srinivasa Kumar	11.01.2006
8.	Kishore Babu N.	11.01.2006
9.	Krishan Kumar Tiwari	11.01.2006
10.	N. Lakshmi Narasimhan	11.01.2006
11.	Mehta Nandish Ashutosh	11.01.2006
12.	Hamid Ahmed Khan M. D.	11.01.2006
13.	Naveen K. P.	11.01.2006
14.	Vurimi K. N. Kiran Kanth	11.01.2006
15.	Vinitha Ramdas	11.01.2006
16.	Vijay Pal Kundanapalli	11.01.2006
17.	Vaddi Raghavaiah	11.01.2006
18.	Usha N.	11.01.2006
19.	Shahul Hameed Ansari M. D.	11.01.2006
20.	Sujo Joseph K.	11.01.2006
21.	Ravikumar Keshavappa	11.01.2006
22.	S. Pavithra	11.01.2006
23.	Anubrata Dey	20.01.2006
24.	S. Somasundaram	20.01.2006
25.	Kumar S.	30.01.2006
26.	V. L. N. Sridhar Raja	06.02.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint Dr. Bharat Khushalani as Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 03.03.2006 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(2)/2008-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Ganeshan P. P.	Scientist/Engineer-SD	17.02.2006
2.	Nagaraj C. S.	Scientist/Engineer-SG	09.05.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(2)/2008-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers and Officers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relieve
Shri/Smt./Kum.			
1.	K. S. V. Seshadri	Scientist/Engineer-H	31.12.2005
2.	K. Janardhanan	Administrative Officer	31.12.2005
3.	Anil D. Rao	Scientist/Engineer-SF	28.02.2006
4.	Shashikala Balakrishna	Purchase & Stores Officer	31.03.2006
5.	S. Chandrasekharan	Scientist/Engineer-SF	31.03.2006
6.	K. Kanaka Raju	Scientist/Engineer-G	31.05.2006
7.	N. Manthasah	Scientist/Engineer-G	31.05.2006
8.	Sadananda Kumar	Scientist/Engineer-SF	31.05.2006
9.	R. Murugesan	Senior Administrative Officer	31.05.2006
10.	M. K. Narasimha Murthy	Accounts Officer	31.05.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(2)/2008-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

S. No.	Name	Post	Date of Resignation
Shri/Smt./Kum.			
1.	S. S. Kannan	Scientist/Engineer-SD	30.12.2005
2.	Anem Sreedevi	Scientist/Engineer-SC	01.02.2006
3.	A. J. Jayaprakash	Scientist/Engineer-SD	03.02.2006
4.	Rajeev Mathotra	Scientist/Engineer-SD	06.02.2006
5.	A. Ravikumar Setty	Scientist/Engineer-SC	10.02.2006
6.	Sivakumar A. K.	Scientist/Engineer-SD	13.02.2006
7.	Praveen Kumar	Scientist/Engineer-SD	15.02.2006
8.	Ramabhadran	Scientist/Engineer-SE	27.02.2006
9.	B. T. Khadar Lakshmi	Scientist/Engineer-SD	24.03.2006
10.	P. Raja Ram	Scientist/Engineer-SD	31.03.2006
11.	K. Kavitha	Scientist/Engineer-SC	01.05.2006
12.	T. Kanthumathurathan	Scientist/Engineer-SG	31.05.2006
13.	G. Manju Bhargava	Scientist/Engineer-SC	31.05.2006
14.	Riddharth Singh	Scientist/Engineer-SC	02.06.2006
15.	Susmita Bhattacharyya	Scientist/Engineer-SC	06.06.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

The 5th May 2008

CORRIGENDUM

No. 3/1(1)/2008-I. —In Partial modification of this Department's notification of even number dated 12.03.2008, the designation in respect of Dr. M. A. George, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram mentioned at Sl. No. 2 therein may please be read as 'Medical Officer-SG' instead of 'Medical Officer-SF'.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 9th May 2008

No. F.6(1921)/2004-Adm.I.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-6/2008 dated 5.3.2008 issued from their file No. 13016/3/2008-IES, Shri C. K. G. Nair, NFSG officer of IES and Director, Planning Commission (who was on Study Leave w.e.f. 1.9.2006 to 31.3.2008) stands relieved from Planning Commission w.e.f. 1.4.2008(FN) on his posting in Department of Economic Affairs.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 14th May 2008

No. F.6(1942)/2005-Adm.I.—In pursuance of approval of competent authority as conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Order No.27/51/2007-EO(SM.I), dated 23rd April 2008 Smt. Manjulika Gautam, IAS (UP:72), Senior Adviser, Planning Commission is prematurely repatriated to her State Cadre i.e. Government of Uttar Pradesh with effect from 14th May, 2008 (AN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 15th May 2008

No.A-44011/4/2000-Adm.I.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-3/2008 dated 1.5.2008 issued from their file No. 11016/5/2007-IES the following Junior Administrative Grade officers of IES working as Deputy Advisers in the Planning Commission are granted Non-Functional Selection Grade of the Service in the scale of pay of Rs. 14,300-400 18,300/- with effect from 15.10.2007 :—

S. No.	Name
1.	Shri K. S. Kalasua
2.	Shri Arun Kumar
3.	Shri Swapan Kumar Mondal

2. Consequent on being placed in NFSG of IES, they are designated as Director by upgrading the post of Deputy Adviser as personal to them.

3. The grant of NFSG to the above officers is subject to the final outcome of the Civil Appeal 1366-67/2004 pending

in the Hon'ble Supreme Court and Civil Writ Petition No. 5953/2002 pending in the Hon'ble High Court of Delhi.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. F.6(1955)/2005-Adm.I.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-33/2007-IES dated 10.12.2007 issued from file No. 13016/3/2007 :—

1. Shri Bal Ram, JAG officer of IES and Deputy Adviser, Planning Commission is relieved from Planning Commission w.e.f. 15.05.2008 (AN) to join Regional Evaluation Officer of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Chandigarh.

2. Shri V. K. Attri, JAG officer of IES and Deputy Adviser, Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Chandigarh, is relieved from REO, Chandigarh w.e.f. 15.05.2008(AN) to join Planning Commission.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 1st May 2008

No. K. 13012/4/2007-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Surendra Singh, (ii) Shri Arvind Kumar Tripathi, (iii) Shri Shashi Kant Gupta, (iv) Shri Bala Krishna Narayana, (v) Shri Rajesh Dayal Khare, (vi) Shri Shabihul Hasnain and (vii) Shri Abhinava Upadhyaya, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 9th May 2008

No. K. 13026/1/2008-U.S.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rajendra Mal Lodha, Judge of the Rajasthan High Court, to be the Chief Justice of the Patna High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 12th May 2008

No. K. 13027/2/2008-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Laxmi Narain Mittal, (ii) Shri Justice Nawab Singh, (iii) Shri Justice Mohinder Pal, (iv) Shri Justice Harbans Lal, (v) Shri Justice Sham Sunder, and (vi) Shri Justice Karam Chand Puri,

Additional Judges of the Punjab & Haryana High Court, to be Judges of the Punjab & Haryana High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Joint Secy.

No. K. 13028/1/2008-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause(1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Chatra Ram Jat, (ii) Shri Justice Gauri Shanker Sarag and (iii) Shri Justice Mohammad Rafiq, Additional Judges of the Rajasthan High Court, to be Judges of the Rajasthan High Court, in that order of seniority, with effect from dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Joint Secy.

No. K. 11017/4/2008-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Asok Kumar Ganguly, Chief Justice, Orissa High Court as Chief Justice, Madras High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Madras High Court on or before 27th May, 2008.

RAMESH ABHISHEK, Jt Secy.

No. K. 11019/3/2008-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Ishrat Masroor Qudusi, seniormost Judge of the Orissa High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Asok Kumar Ganguly relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Orissa High Court consequent upon his transfer as Chief Justice of the Madras High Court.

RAMESH ABHISHEK, Jt Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th May 2008

No. I-18011/3/2008-IPS.IV.—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Babu Lal Meena IPS (Punjab : 2004), in the Indian Police Service with effect from the 27th December, 2006.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

The 15th May 2008

No. I-18011/4/2007-IPS.IV.—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian

Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Tamil Nadu with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	A.G. Babu, IPS (TN:2004)	23.05.2007
2.	Avinash Kumar, IPS (TN: 2004)	27.12.2006

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 1st May 2008

No. PFG/928/07-Ad.I—Consequent on his promotion to the post of Joint Director (Cost) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- vide Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office of Chief Adviser Cost, Office Order No. A-32013/8/2007-CAC dated 09.04.2008, Shri G.G. Mitra has assumed the charge of the post of Joint Director (Cost) at the headquarters of the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 17 April, 2008 until further orders.

R.C. TULLY, Under Secy.

The 5th May 2008

No. PFG/947/07-Ad.I—In pursuance to Department of Personnel and Training's Order No. 5/1/2008-C.S.I. (Desk) dated 10th April, 2008 and consequent on his being relieved from the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), Shri L.K. Trivedi, Section Officer of CSS has assumed the charge of the post of Under Secretary in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 21st April, 2008.

R.C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 13th May 2008

No. Q/PA 1/39/2008—The President is pleased to appoint the undermentioned officer presently in Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of 01 May 2008 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
1.	Shri Skandh Kajan Tayal	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of

01.05.2008 and assumed charge of the post in Grade-II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 3rd April 2008

No. 31 (F.No. A. 38011/2/2008-Ad.I).—Shri Ratneshwar Prasad, an officer of the Indian Revenue Service (IT:1970), posted as Chairman, CBDT in the Department of Revenue demitted the office on 31st March 2008 (AN) on completion of the extended period of tenure after attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 32 (F.No. A. 38011/4/2008-Ad.I).—Shri S.K. Shingai, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise: 1970), posted as Chairman, CBEC in the Department of Revenue retired from Government Service on 31st March 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 33 (F.No. A. 38013/4/2008-Ad.I).—Shri H.S. Menhadiya, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31st March 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 4th April 2008

No. 34 (F.No. A.19011/8/2008-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Shri Prasanna Kumar Misra, Indian Revenue Service (IT: 1971) as Chairman of the Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue, Ministry of Finance, w.e.f. 01st April 2008 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 35 (F.No. A.19011/9/2008-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Shri P.C. Jha, Indian Revenue Service (C&CE: 71) as Chairman of the Central Board of Excise & Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance, with effect from 01.04.2008 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 37 (F.No. A. 39011/11/2008-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Shri Vijay Singh, IRS (C&CE: 72),

as Member of the Central Board of Excise & Customs (CBEC) in the Department of Revenue, Ministry of Finance, with effect from 31.03.2008 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 10th April 2008

No. 38 (F. No. 50/45/2008-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint the following Regular Assistants of the CSS, on their promotion, as Section Officer (Ad-hoc) of CSS, purely on ad-hoc basis in the Department of Revenue w.e.f 03.04.2008 (FN) and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri/Ms.)
1.	S.S. Nirwan
2.	Sanjay Kumar
3.	Ms. Manju Chandra
4.	Jagdish Kumar
5.	Suresh Yadav
6.	Ms. Manjula Sharda
7.	Ms. Naresh Badhan

2. The aforesaid short-term promotion of the above named officers will not bestow on them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 21st April 2008

No. 39 (F. No. A.19014/10/2005-Ad.I).—Consequent upon her nomination for the post of Assistant Director (OL) on regular basis by Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs vide Office Order No. 5/1/2004-OL(S), dated 25.03.2008, the President of India is pleased to appoint Smt. Surekha Bindra as Assistant Director (OL) on regular basis with effect from 26.03.2008 and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

New Delhi, the 28th April 2008

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 25 of 2008 (F. No. A.38012/14/2008-Ad.II).—The president is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri Anil Taneja (D.O.B : 22.10.1950) (IRS: C&CE: 1977), Commissioner of Customs & Central Excise (Appeal), Guwahati from the Government Service with effect from 30.04.2008 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 30th April 2008

No. 26 of 2008 (F. No. A-38012/10/2008-Ad.II).—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Ravi Vasudev, Assistant Commissioner in DG Valuation, Customs & Central Excise, Mumbai with effect from 30.04.2008 (AN) under Rule 48(1) of CCS (Pension) Rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 13th May 2008

No. A.19011/8/2008-Admn.II.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2008-CS.I (Desk) dated 10.04.2008, the President is pleased to appoint Shri O. P. Kanojia, (CSL No. 6224) Desk Officer of CSS Cadre of Union Public Service Commission as Under Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 13th May, 2008 and until further orders.

2. The aforesaid appointment of Shri O. P. Kanojia on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The appointment shall further be subject to the order dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.M. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 12th May 2008

No. A.12026/5/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Ashwini Kumar Tiwari, IDAS (1994) as Deputy Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- under the Central Staffing Scheme for a period of 4 years with effect from the forenoon of the 12th May, 2008 upto the afternoon of the 11th May, 2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 12th May 2008

No. 3/5/2008-EI&EP/E-IV.—Consequent upon acceptance of her notice for voluntary retirement from Service under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, by the Competent Authority, Ms. Shashi Sareen, Director (I&Q/C) in Export Inspection Council of India under the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, stands relieved from the Service with effect from 1st April, 2008.

N. K. LAKHANPAJ., Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND
PROMOTION

New Delhi, the 19th November 2007

No. A-45011/2/2007-E.I.—The President is pleased to appoint the following Grade 'C' Stenographers of CSSS cadre of Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry) as Private Secretaries (Grade 'A' & 'B' merged) in the same cadre on purely ad hoc basis for the period upto 31.12.2007 or until further orders whichever is earlier, w.e.f. the date against them :—

Sl. No.	Name	With effect from
(i)	Shri P. C. Sharma, Department of HI	29.10.2007 (FN)
(ii)	Shri T. A. Abraham, Department of HI	31.10.2007 (FN)

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (merged) PS of CSSS and the ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving reason therefor, which is further subject to the conditions laid down in DoPT's OMs No. 5/8/2006-CS.II dated 31.05.2007 and 01.03.2007.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 10th January 2008

No. A-45011/1/2005-E.I.—Consequent on their nomination to the CSSS cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion vide Department of Personnel and Training's OM No. 5/5/2006-CS.II dated 12.12.2006 and OM No. 5/18/2006-CS.II dated 16.11.2007, for inclusion of their names in the Select List of Steno Grade A&B (Merged) for the year 2004, the President is pleased to appoint the following Officers as Private Secretary Steno Grade A&B (Merged) on regular basis in the CSSS cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce

and Industry) with effect from the date indicated against each, until further orders :—

Sl. No.	Name	Quota/Rank	Posting	Date with effect from
1.	Ms. Seema Rastogi	Departmental Exam (RL-02)	Tariff Commission	27.12.2006 (FN)
2.	Shri Rakesh	Seniority	D/o Heavy Industry	16.11.2007 (FN)
3.	Shri Harshwardhan Singh Rawat	Seniority	On loan to Cabinet Secretariat	16.11.2007 (FN)

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 9th April 2008

No. A.45011/2/2008-E.I.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No.7/16/2007-CS.I (S) dated 27th February, 2008, the following Assistants of the CSS Cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry), belonging to the Select List of 1994 (General), Select List of 1995 (SC Category) and Select List of 1997 (ST Category) are promoted to the grade of Section Officer on purely ad hoc basis in the CSS Cadre of this Department with effect from the date indicated against each for a period up to 30.06.2008 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	SCSL No.	Date of appointment	Place of posting
1	2	3	4	5
S/Shri				
1	Smt. Shashi Malhotra	70/1994	19.03.2008 (FN)	Deptt. of IPP
2	Smt. Meena Soni	86/1994	19.03.2008 (FN)	Deptt. of IPP
3	Smt. Jasota Vaswani	128/1994	19.03.2008 (FN)	Deptt. of HI
4	Rakesh Kumar Singh	129/1994	31.03.2008 (FN)	Deptt. of IPP
5	Arun Kumar Nagar	198/1994	19.03.2008 (FN)	O/o E.A.
6	Smt. Madhu Mahindra	199/1994	19.03.2008 (FN)	Deptt. of IPP
7	Roop Lal	290/1995	19.03.2008 (FN)	Deptt. of HI
8	Vijay Kumar	352/1995	19.03.2008 (FN)	IPP
9	N. A. Karsale	SQ/1997	19.03.2008 (FN)	Deptt. of IPP

The appointments ordered above have been made purely on ad hoc basis and do not confer any right upon the officers to continue in the same post indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority etc. in the Section Officers grade of CSS.

The ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination. In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre allotted to them by DoP&T.

P. BRARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 28th April 2008

No. A-12011/5/2008/HR.II.—The President is pleased to appoint Shri Satish Chandra, IAS (AP : 86) as Joint Secretary in the Department of Fertilizers in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- for a period of five years w.e.f. forenoon of 25th April, 2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. SUBRAMANIAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 13th May 2008

No. A-19011/4/2008/Admn.—The President is pleased to appoint Shri K. Rajeswara Rao, Joint Secretary, IAS (MT : 88) in the Ministry of Food Processing Industries in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/- for the balance period of his central deputation tenure of 5 years, i.e. upto 26.03.2011, from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

Shri K. Rajeswara Rao has assumed the charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 09.05.2008 (F/N).

S. K. MOHANTY, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 1st May 2008

No. A-11013/01/07-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Shri A. J. Kurian, IFS (AGMUT : 87) Director in the Department of Science & Technology who is also officiating as Private Secretary to the Hon'ble Minister for Science & Technology and Earth Sciences, as Private Secretary to the Hon'ble Minister for Science & Technology and Earth Sciences at the level of Director w.e.f. 25-04-08 and upto 18.06.2010 i.e. the balance period under the combined Central deputation tenure of seven years on co-terminus basis or till he ceases to function as Private Secretary to the Hon'ble Minister or until further orders, whichever orders, whichever is earlier. He counts his Central Deputation tenure w.e.f. 19.06.2003.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

The 7th May 2008

No. A-11025/01/05-Admn.I(A).—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Steno Grade 'A&B' {Merged} (PS) of CSSS for the year 2004 against seniority quota vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/18/2006-CS-II dated 01.04.08, the President is pleased to appoint Smt. Jyoti Bhatia, a regular Grade 'C' Stenographer, who was officiating as Private Secretary on ad-hoc basis in the CSSS cadre of Ministry of Water Resources, as Steno Grade 'A&B' (Merged) (designated as PS) in the CSSS cadre of Ministry of Science & Technology (Department of Science & Technology) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 01-05-2008 (FN) and until further orders.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

New Delhi-110016, the 9th May 2008

No. SM/01/34/2005.—The President is pleased to place Shri Tumti S. Kumar (SC) holding the post of superintending Surveyor in Survey of India as Non Functional Second Grade of Superintending Surveyor/Deputy Director in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in that Department with effect from 10 April, 2008 until further orders..

B. K. MANTHAN, Desk Officer

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 9th May 2008

No. MoES/11/20/2006-Estt.—In partial modification of this Ministry's Notification No. MoES/18/09/2007-Estt. dated 8th April, 2008 the President is pleased to promote Dr. Someshwar Das, Scientist 'F' (Rs. 16,400-450-20,000/-) to the grade of Scientist 'G' (Rs. 18,400-500-22,400/-) of General Central Service Group 'A' post on in-situ basis under the Flexible complementing Scheme (FCS) with effect from 18.03.2008.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th May 2008

No. A.12025/24/2007-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Malini R. Capoor to the post of Specialist Gr. II, (Microbiology) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation for a period of one year w.e.f. the forenoon of 12th March, 2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 16th May 2008

No. A.12025/31/2006-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the

President is pleased to appoint Dr. Sanjay Pandey to the post of Assistant Professor in speciality of Neurology in the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, for a period of one year on probation with effect from the forenoon of 3rd August, 2007 until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 15th May 2008

No. A.12025/159/2006-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nishad Khan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 27.11.2007 until further orders. Dr. Nishad Khan is posted as Medical Officer under Union Territory of Lakshadweep. He would be on probation for a period of two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 30th April 2008

No. A.38016/11/2007/E.III.—On attaining the age of superannuation, Shri Surinder Singh Tony, Senior Statistical Officer in the Department of Health & Family Welfare shall retire from Govt. service w.e.f. 30.04.2008 (AN).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 5th May 2008

No. A.32013/03/2007/E.I.—Consequent upon their promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/01/2008-CS-I (Desk) dated 10th April, 2008 read with DoPT's OM of even No. dt. 01st May, 2008, the President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS as Under Secretaries in the Department of Health & FW, purely on ad-hoc basis w.e.f. the date mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	w.e.f.
(1)	Sh. Prem Parkash	29.04.2008 (FN)
(2)	Sh. Pawan Kumar	01.05.2008 (FN)

2. The ad-hoc promotion is subject to the following condition :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.

- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) the officers who have not completed/undergone level 'D' Training of the CSS shall require to undergo and successfully complete the level 'D' Training within a period of two years.
- (iv) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

New Delhi, the 5th March 2008

No. 27-2775/2008-Estt.I.—The President is pleased to appoint Smt. Veena Bhalla as Under Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 26th February 2008 until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 28th April 2008

No. 27-2617/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri S. L. Bhat, IAS (JK : 76) as Additional Secretary and Financial Advisor in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- w.e.f. the forenoon of 28th April, 2008.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 17th March 2008

No. 32011/03/2007-E.II.—With the approval of the Competent Authority, the ad-hoc appointment of Shri S. K. Kaul, Senior Technical Assistant (Crops) Rs. 6,500—10,500/- as Assistant Director (Crops) in the pay scale of Rs. 7,500—12,000/- in the Department of Agriculture & Cooperation is extended w.e.f. 12th April (FN) till 11th October 2008 (AN) or until further orders whichever is earlier

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority or for regular appointment in the grade of Assistant Director (Crops) and for eligibility for promotion in the next higher grade.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 27th March 2008

No. 32011/07/2007-E.II.—The President is pleased to appoint Shri R.A.S. Patel, Senior Technical Assistant (NRM/

RFS) in the Department of Agriculture & Cooperation as Assistant Soil Conservation Officer (NRM/RFS) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on promotion on the recommendations of UPSC with effect from the forenoon of 25th February, 2008.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 31st March 2008

No. 38011/5/2007-E.II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri M. L. Ram, Assistant Development Officer (Manures) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in the Department of Agriculture and Cooperation, shall stand retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 31st March, 2008.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 4th April 2008

No. 32011/02/2008-E.II.—With the approval of the competent authority, Smt. Neerja Joshi, Senior Technical Assistant (Manure) in the Department of Agriculture & Cooperation is promoted to the post of Assistant Development Officer (Manures) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the forenoon of 1st April, 2008.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 30th April 2008

No. 38011/6/2007-E.II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Jose C. Samuel, Additional Commissioner (NRM/RFS) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Agriculture and Cooperation, stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 30th April, 2008.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 38011/7/2007-E.II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri D. R. Singh, Assistant Commissioner (NRM/RFS) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Agriculture and Cooperation stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 30th April, 2008.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 7th May 2008

No. A-12026/3/2006-EA.—The President is pleased to appoint Prof. S. Mahendra Dev, Director, Centre for Economic and Social Studies, Hyderabad, to the post of Chairman, in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) in the Commission for Agricultural Costs and Prices on deputation basis, for a period not exceeding three years, with effect from the Forenoon of 6th May, 2008 or until further orders whichever is earlier.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 12th May 2008

No. A-19012/3/2008-EA.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Meena, a Senior Time Scale (STS) Officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Assistant Economic Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of the 19.11.2007.

K. SANJAYAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 30th April 2008

No. 12-21/2005-Admn.III—on the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sandeep Kumar Singh, as Assistant Director in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the National Institute of Animal Health (NIAH), Baghpat, U.P. in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture on direct recruitments basis, with effect from the forenoon of 1st April, 2008, until further orders.

A. K. JAIN, Under Secy.

New Delhi, the 16th May 2008

No. 2-6/2006-Fy. (Admn.).—The President is pleased to allow Shri G. K. Avhad, Senior Fisheries Scientist, Fishery Survey of India, Mumbai Base to retire from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.04.2008 (A.N.).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

No. 3-21/2007-Fy.(Admn.).—The following Group 'A' posts of Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin are hereby re-designated with effect from the date of publication of the Notification in the Official Gazette:—

Sl. No.	Existing Designation	Revised Designation
1.	Deputy Director (Experimental Fishing)	Deputy Director
2.	Assistant Director	Senior Instructor (Fishing Technology)
3.	Senior Instructor (General)	Senior Instructor (Training)
4.	Senior Instructor (Boat Building)	Senior Instructor (Naval Architecture)

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

9-8457/08

**CENTRAL INSTITUTE OF COASTAL ENGINEERING
FOR FISHERY**

Bangalore-560031, the 14th May 2008

No. A.12(25)/2007-CEF(UPSC).—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee (Group 'B') (Gazetted), the undersigned is pleased to promote Shri B. Venkatramaiah, Economic Investigator, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore to the post of Senior Economic Investigator in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 12.05.2008 (FN) until further orders.

K. OMPRAKASH, Director

**(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH &
EDUCATION)**

New Delhi, the 6th May 2008

No. 3-2/2002-Estt.—The President of India is pleased to extend the term of appointment of Dr. Mangala Rai, as Secretary, Department of Agricultural Research & Education (DARE) & Director General, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for a period of two years on the same terms and conditions with effect from 1st July, 2007 and until further orders.

D. K. CHHATWAL, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st May 2008

No. 22-30/2006-Admn.—In compliance to Appointments Committee of the Cabinet, DoPT's Order No. 4/14/2008-EO(SM.I) dated 24.04.2008 Ms. Shalini Prasad, IAS (UP : 85) has relinquished the charge of Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights and her services have been placed on compulsory wait at the level of Joint Secretary in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 28.04.2008.

Smt. SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

The 8th May 2008

No. 3-2/2008-Admn.—Consequent upon his selection for appointment as Joint Secretary in the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) vide DoPT's order No. 9/18/2008-EO(SM.I) dated 01.05.2008, the President is pleased to relieve Shri K. Rajeswara Rao, IAS (MT : 88), Director of this Ministry with effect from the afternoon of 08.05.2008.

Smt. SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT**

New Delhi-110001, the 16th May 2008

No. 3-7/2004-NI-II/DD-IV.—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National

Handicapped Finance and Development Corporation, the President is pleased to appoint Shri S. K. Mukherjee, Chairman-cum-Managing Director, Artificial Limb Manufacturing Corporation (ALIMCO) as an ex-officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance and Development Corporation with immediate effect for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier, vice Shri A. K. Bhattacharya.

K. N. MISHRA, Under Secy.

No. 3-7/2004-NI-II/DD-IV.—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance and Development Corporation, the President is pleased to appoint Shri K. S. Luda, IES, Additional Development Commissioner (SSI) as an ex-officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance and Development Corporation with immediate effect for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Jawher Sircar, IAS (WB : 75).

K. N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi-110115, the 28th April 2008

No. 11036/09/2005-PC&V.—In partial modification of this Ministry's notification No. 11036/09/2005-PC&V(i) dated 13.11.2007, and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri S. N. Halder, Dy. Secretary is hereby designated as Central Public Information Officer, in place of Shri S. K. Gupta, Dy. Secretary, in respect of Integrated Finance Division of this Ministry and the specific subject matters indicated against S. No. 7 of the above said notification.

2. Shri S. N. Halder's official address & Telephone No. is :—

Room No. 216-H, 'D' Wing, Shastri Bhawan

New Delhi-110115

Tel. No. 23385487

3. The name of Shri S. K. Gupta, Dy. Secretary, since transferred from this Ministry, indicated against S. No. 7 of the above said notification, may be treated as deleted.

B. B. SHARMA, Dy. Director (PC & V)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY**

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 13th May 2008

No. 2(8)/2007-Pers.I (Vol.II).—The President is pleased to appoint Shri Krishna Kumar B. (E. Code-963) as Scientist 'B' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity in the Department of Information Technology with effect from the forenoon of 28-04-2008.

2. He will draw pay at the minimum of the above scale of pay.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

GIRISH SAHAI, Dy. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 15th April 2008

No. 19(5)/2006-Pers.—The President is pleased to appoint Dr. Kashi Nath, Scientist-F (Employee Code : 66) to officiate as Scientist-G in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in National Informatics Centre with effect from April 7, 2008 and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Director (Pers.)

No. 19(5)/2006-Pers.—The President is pleased to appoint Ms. Anjana Choudhary, Scientist-F (Employee Code : 87) to officiate as Scientist-G in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in National Informatics Centre with effect from April 7, 2008 and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Director (Pers.)

No. 19(5)/2006-Pers.—The President is pleased to appoint Shri A. Venkatesan, Scientist-F (Employee Code : 102) to officiate as Scientist-G in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in National Informatics Centre with effect from April 7, 2008 and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Director (Pers.)

No. 19(5)/2006-Pers.—The President is pleased to appoint Ms. Deejani Nag, Scientist-F (Employee Code : 107) to officiate as Scientist-G in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in National Informatics Centre with effect from April 7, 2008 and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Director (Pers.)

No. 19(5)/2006-Pers.—The President is pleased to appoint Shri B. Venkateswara Sarma, Scientist-F (Employee Code : 120) to officiate as Scientist-G in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in National Informatics Centre with effect from April 7, 2008 and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Dir. (Pers.)

No. 19(5)/2006-Pers.—The President is pleased to appoint Shri Sreedhara Sastry A, Scientist-F (Employee Code : 141) to officiate as Scientist-G in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in National Informatics Centre with effect from April 7, 2008 and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Dir. (Pers.)

No. 19(5)/2006-Pers.—The President is pleased to appoint Dr. Ambresh Kumar, Scientist-F (Employee Code : 1506) to officiate as Scientist-G in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in National Informatics Centre with effect from April 7, 2008 and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Dir. (Pers.)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 5th May 2008

Subject : Promotion to Senior Time Scale (Rs. 10,000-325-15,200/-) of Indian Postal Service Group 'A'.

No. 4-5/2008-SPG.—The President is pleased to appoint the following officers of Junior Time Scale of Indian Postal Service Group 'A' to officiate on regular basis in the Senior Time Scale of the said Service (Pay Scale Rs. 10,000-325-15,200/-) w.e.f. 01.04.2008 :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Present Posting
	S/Shri		
1.	Vedi N. V.	—	TN Circle
2.	Singh Abhishek Kumar	2003	Uttaranchal Circle
3.	Agarwal Priti Ms.	2003	UP Circle
4.	Sharma Rashi Ms.	2003	Delhi Circle
5.	Mudgal Dushyant	2003	Rajasthan Circle
6.	Rashid Sayeed	2003	ADG (IR), Postal Dte.
7.	Kumar Vinod	2003	Delhi Circle
8.	Kumar Manoj-I	2003	Delhi Circle

2. In case the officers wish to give option for choosing the date for fixation of pay under FR-22 (i)(a)(i), they should do so within one month from the date of issue of this order.

3. In case any vigilance/disciplinary case of the type referred to in O.M. No. 22011/2/91-Estt. dated 14.09.92 issued from the Department of Personnel & Training circulated vide this office Memo No. 25-19/88-SPG dated 13.10.92 is pending against any officer, a detailed report should be sent to this office immediately and the officer concerned should not be promoted without obtaining specific orders from this office.

4. Relevant charge reports may be sent to this office in due course and at the earliest possible.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th May 2008

No. A.19011/2/2001-RS(Part).—On attaining the age of superannuation Shri Bhupendra Singh, a Group 'A' Officer of the Railway Inspectorate Service in the Ministry of Civil Aviation (Commission of Railway Safety) retired from

government Service from the post of Commissioner of Railway Safety on the afternoon of 30th April, 2008.

OMA NAND, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th May 2008

No. ERB-I/2008/31.—Shri Moti Ram, Assistant (Scale Rs. 6,500-10,500/-), Railway Board is appointed as Protocol Officer in Grade Rs. 6,500-10,500/- in Railway Board on deputation basis with effect from the forenoon of 10.04.2008.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS
(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS)

New Delhi-110001, the 28th April 2008

No. A 19012/1/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Kanwar Singh Yadav, (Central Secretariat Official Language Service) as Assistant Director (Official Language) Group 'B' in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- on regular basis in Ministry of Shipping Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) w.e.f. 17.4.2008 (FN).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

The 29th April 2008

No. A.19011/5/2008-E.I.—The President is pleased to appoint Shri C.P. Singh as Assistant Director, (Grade IV Junior Time Scale of IES) in the pay scale of Rs. 8,000-13,500/- w.e.f. 1st April, 2008 (FN) on regular basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

New Delhi, the 5th May 2008

No. A.32014/2/2004-E.II(B).—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training's OM. No. 5/11/2007-CS.II dated 7.2.2008, the President is pleased to appoint Smt. Manjeet Kaur, Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Power as Private Secretary [Steno Grade 'A' & 'B' (merged)] on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways with effect from 30.4.2008 for the period upto 30.6.2008 or until further orders, whichever is earlier.

K. S. RAO, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 12th May 2008

No. 12/2008-F. No. 2/4/2008-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri J. S. Sehrawat, Under Secretary, Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) to the Selection Grade (Deputy Secretary) of the Ministry of Power, on ad hoc basis, with effect from the forenoon of the 9th May, 2008 until further orders. The said appointment shall be governed by the terms and conditions contained in the Department of Personnel & Training's Order No. 4/9/2006-CS.I dated 2nd May, 2008

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

The 15th May 2008

No. 13/08-F. No. 2/2/2005-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri Malay Shrivastava, IAS (MP : 1990), as Director in the Ministry of Power with effect from the forenoon of the 15th May, 2008 for a period upto 5th May, 2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
DIRECTORATE OF PRINTING

New Delhi, the 27th May 2008

No. 25/1/2006-A II (Vol. II).—The President is pleased to appoint Ms. Madhuri Dabral, (IPOS 1989) as Director of Printing in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- in the Directorate of Printing on deputation basis for a period of three years with effect from 09.05.2008 (Forenoon).

2. The pay and allowances of Ms. Madhuri Dabral, will be regulated in accordance with general orders of the Central Government issued from time to time.

PUSHPA GEORGE, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 14th May 2008

No. A-33022/01.2006-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Kamal Bakhru, Section Officer (Ad hoc) of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment as Desk Officer in the Ministry of Labour & Employment with effect from 3rd April, 2008 (A.N.).

PRADEEP GAUR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार, मंत्रालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 2008

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 2008